

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को कैंनेडा 2021 में सर्वोत्तम कम्युनिटीज के लिए मैकलीन्ज सूची में #13 के तौर पर सम्मानित किया है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (9 अप्रैल, 2021) – मैकलीन्ज मैगज़ीन (Maclean's Magazine) के द्वारा, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को, *कैंनेडा की सर्वोत्तम कम्युनिटीज 2021 (Canada's Best Communities 2021)* में से एक के तौर पर सम्मानित किया गया है। यह देश में रहने के लिए सर्वोत्तम स्थानों की रैंकिंग है।

पिछले वर्ष, ब्रैम्पटन ने सूची में 199^{वां} स्थान हासिल किया था। इस वर्ष, ब्रैम्पटन 415 शहरों में से 13 की रैंकिंग पर पहुंच गया है। यह रैंकिंग, प्रत्येक कम्युनिटी की मुख्य विशेषताओं को चिन्हित करती है, जहां ब्रैम्पटन की *कम्युनिटी भागीदारी, सुविधाओं और इंटरनेट कनेक्टिविटी* के लिए शहर को, कैंनेडा में रहने और घर से काम करने के सबसे अच्छे स्थानों में से एक के तौर पर चुना गया है।

देश में रहने के लिए सर्वोत्तम स्थानों की, मैकलीन्ज की खास नई रैंकिंग में, कोविड-19 (COVID-19) महामारी को और इस बात को ध्यान में रखा गया है कि अधिक लोग घर से काम कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। एनवायरनिक्स एनालाइटिक्स (Environics Analytics) और कैंनेडियन इंटरनेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (सी.आई.आर.ए.) (Canadian Internet Registration Authority) (CIRA) के द्वारा प्रदान किए गए डेटे के साथ-साथ, कई स्रोतों के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग करते हुए, उन्होंने इस आधार पर श्रेणियों की रैंज तैयार की कि वे औसतन व्यक्ति के बारे में प्रत्येक श्रेणी को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और उसके मुताबिक प्रत्येक म्युनिसिपल्टी को रैंकिंग दी।

मैकलीन्ज की रैंकिंग में, रिहायश सामर्थ्य, आबादी में वृद्धि, टैक्सों, अपराध, मौसम, हेल्थ केयर, सुविधाओं तक पहुंच और कम्युनिटी की भागीदारी पर विचार किया गया। इसमें सी.आई.आर.ए. (CIRA) के डेटे के आधार पर नई श्रेणी रेटिंग, ब्रॉडबैंड परफॉरमेंस भी शामिल की गई थी।

अधिक जानकारी के लिए और पूरी सूची देखने के लिए, www.macleans.ca पर जाएं।

हवाले

“ब्रैम्पटन एक सुरक्षित, स्थिर और सफल शहर है। मुझे न केवल मैकलीन्ज के द्वारा, कैंनेडा की सर्वोत्तम कम्युनिटीज में से एक के तौर पर सम्मानित किए जाने पर, बल्कि एक ही वर्ष में #199 से #13 की जगह पर पहुंचने पर बेहद गर्व है। हम, अपने निवासियों के लिए निरंतर ऐसा संपन्न शहर बना रहे हैं, जो जुड़ा हुआ, स्थिर, भागीदारी वाला हो और अधिक आर्थिक वृद्धि तथा नौकरी पैदा करने की स्थिति में हो।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

"मैकलीन्ज के द्वारा, कॅनेडा की सर्वोत्तम कम्युनिटीज में से एक के तौर पर सम्मानित होना, हमारे निवासियों के लिए अर्थपूर्ण परिणाम प्रदान करने के लिए हमारी टीम के द्वारा किए जाने वाले काम को दर्शाता है। हम अपनी कम्युनिटी के लिए परिणाम प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टर्म ऑफ काउंसिल प्रायोरिटीज को आगे बढ़ाकर, हम ब्रैम्पटन को ऐसी जगह बनाना जारी रखेंगे, जिसे लोग रहने, काम करने और खेलने के लिए चुनें।"

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कॅनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca